

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 236]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 16 जून 2015—ज्येष्ठ 26, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 जून 2015

फा. क्र. 17(ई)-261-2014-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के जिला मन्दसौर में विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 227-गरोठ हेतु विधान सभा उप निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने के लिये, संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को दिनांक 3 जून 2015 से 2 जुलाई 2015 तक, 227-गरोठ विधान सभा उप निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वाणी, सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (भारत निर्वाचन), जिला मन्दसौर

विधान सभा क्षेत्र क्र. 227-गरोठ उप चुनाव सम्पन्न कराने हेतु नियुक्त सेक्टर अधिकारियों की सूची

स.क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	पदनाम (3)	विभाग का नाम (4)
1	श्री आर. के. शर्मा	कार्यपालन, यंत्री	जल संसाधन, गांधीसागर
2	श्री रविन्द्र महाजन	महिला सशक्तीकरण अधिकारी	महिला एवं बाल विकास, मन्दसौर
3	श्री के. सी. भारती	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत, मन्दसौर
4	श्री जितेन्द्र सिंह	सहा. भूमि संरक्षण अधिकारी	सहायक मिट्टी परीक्षण केन्द्र, मन्दसौर
5	डॉ. डी. के. जैन	व्ही. ए. एस.	पशु चिकित्सा विभाग, मन्दसौर
6	डॉ. विनित पाटीदार	व्ही. ए. एस.	पशु चिकित्सा विभाग, सीतामऊ
7	श्री के. एल. सोलंकी	सहायक संचालक	उद्यानिकी विभाग, मंदसौर
8	श्री अजय प्रधान	ग्रामीण उद्योग अधिकारी	ग्रामीण उद्योग विभाग, जिला पंचायत, मन्दसौर

(1)	(2)	(3)	(4)
9	श्री डी. पी. कुमरे	कार्यपालन यंत्री	संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग
10	श्री अरविन्द खरे	कार्यपालन यंत्री	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, मन्दसौर
11	श्री हेमू कुमरे	कार्यपालन यंत्री सिविल	कार्यपालन यंत्री, लोक. स्वा. यां., मन्दसौर
12	श्री ए. के. जैन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत, मन्दसौर
13	श्री के. एस. सोलंकी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत, मल्हारगढ़
14	श्री ए. एच. खान	अनुविभागीय अधिकारी	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सीतामठ
15	श्री एम. एस. चुण्डावत	सहायक प्रबंधक	म.प्र. ग्रामीण सड़क प्राधिकरण, मन्दसौर
16	श्री एम. एल. बजाज	परियोजना अधिकारी	जिला शहरी विकास अधिकरण, मन्दसौर
17	श्री अनिल तिवारी	सहा. परियोजना अधिकारी	जिला पंचायत, मन्दसौर
18	श्री राजेन्द्र सिंह तोमर	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत, सीतामठ
19	श्री शिवराम चौहान	सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग, संभाग मन्दसौर
20	श्री नवसिंह भूरिया	सहायक यंत्री सिविल	संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग
21	श्री आर. के. रघुवंशी	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत, भानपुरा
22	श्री आर. ए. एस. जोनवार	सहायक संचालक, कृषि	कृषि, मन्दसौर
23	श्री रविन्द्र कुमार मिश्रा	सहायक संचालक	महिला एवं बाल विकास, मन्दसौर
24	श्री पी. के. शर्मा	सहायक प्रबंधक	म.प्र. ग्रामीण विकास सड़क प्राधिकरण
25	श्री बी. एस. पटेल	जिला शिक्षा अधिकारी	शिक्षा विभाग, मन्दसौर
26	श्री सी. के. भीसे	सहायक संचालक	मछली पालन, मन्दसौर
27	श्री राजेश गागर्व	महाप्रबंधक	उद्योग विभाग
28	श्री मनोज जाट	परियोजना अधिकारी	परियोजना अधिकारी, आई.सी.डी.एस., सीतामठ
29	श्री मनोज दुबे	परियोजना अधिकारी	परियोजना अधिकारी, आई.सी.डी.एस., मन्दसौर
30	श्री पी. एस. मालवीय	परियोजना संचालक	परियोजना संचालक, आत्मा (कृषि) मन्दसौर
31	डॉ. एस. के. बड़ोदिया	कार्यक्रम समन्वयक	कृषि विज्ञान केन्द्र, मन्दसौर
32	श्री ओमप्रकाश निम्बे	सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मन्दसौर
33	श्री आर. के. गगराडे	सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, शामगढ़
34	डॉ. पंकज जैन	प्रबंधक	शा. प्रजनन प्रक्षेत्र, बासाखेड़ी
35	श्री पी. एन. पाटीदार	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत, सीतामठ
36	श्री पृथ्वीराज परमार	डी. पी. सी.	जिला शिक्षा केन्द्र
37	श्री राजेश गुप्ता	इंजीनियर	उद्यानिकी महाविद्यालय
38	श्री आर. एल. जामरे	उप संचालक	कृषि विभाग, मंदसौर
39	श्री पी. एस. मण्डेलिया	अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जिला पंचायत, मन्दसौर
40	श्री आर. बी. रस्तोगी	प्रबंधक	जिला उद्योग विभाग
41	श्री बी. पी. सतनामी	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत, मल्हारगढ़
रिजर्व	डॉ. जे. के. जैन	उप संचालक	सामाजिक न्याय, मन्दसौर
रिजर्व	श्री अनिल भट्ट	परियोजना अधिकारी	बालश्रम विभाग, मन्दसौर
रिजर्व	श्री ए. के. तिवारी	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत गरोठ
रिजर्व	डॉ. के. एस. सगर	व्ही. ए. एस.	पशु चिकित्सालय, गरोठ.

जिला मजिस्ट्रेट.